

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 168]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 मार्च 2010—चैत्र 2, शक 1932

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2010

क्र. बी-11-20-2009-चौदह-2.—भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011-15-99-क्रेडिट-2 दिनांक 16 जुलाई 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम रबी वर्ष 2009-10 के लिए जारी की गई समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 28 अक्टूबर 2009 के अतिरिक्त/संशोधित उज्जैन जिले में नवीन पटवारी हल्का बन्दी लागू होने के फलस्वरूप संलग्न सूची अनुसार पटवारी हल्कों को उनके समक्ष दर्शायी गयी फसलों के लिए राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. बी. एस. भदौरिया, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, भू-अभिलेख, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पटवारी हल्का स्तर पर) —मौसम रबी 2009-10 के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों की मिलान उपरांत प्रकाशन से शेष रहे हल्कों की जानकारी :—

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	प.ह.नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	100 हैक्टे. या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली फसलों की पटवारी हल्कावार संशोधित सूची		अन्य विवरण
					मौसम रबी		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	गेहूं (सि.) (12)	चना (14)	(16)
1	उज्जैन	उज्जैन-2	30	जमालपुरा	गेहूं	चना	
2	उज्जैन	उज्जैन-2	31	करोदिया उर्फ नवाखेडा	गेहूं	चना	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(12)	(14)	(16)
3	उज्जैन	उज्जैन-2	34	डेंडिया	गेहूं	चना	
4	उज्जैन	उज्जैन-2	39	जियापुरा	गेहूं	-	
5	उज्जैन	कोठी महल-3	40	पवासा	-	-	
6	उज्जैन	कोठी महल-3	42	नहारीया	गेहूं	चना	
7	उज्जैन	कोठी महल-3	48	भाण्डबडोदिया	गेहूं	चना	
8	उज्जैन	कोठी महल-3	49	बदरख बंसिया	गेहूं	चना	
9	उज्जैन	कोठी महल-3	51	शंकरपुर	-	-	
10	उज्जैन	कोठी महल-3	54	खजुरिया कुमावत	गेहूं	चना	
11	उज्जैन	कोठी महल-3	56	बांसखेड़ी खालसा	गेहूं	चना	
12	उज्जैन	कोठी महल-3	59	जयवंतपुर	-	-	
13	उज्जैन	कोठी महल-3	62	नीमनवासा	गेहूं	-	
14	उज्जैन	कोठी महल-3	63	कोठी महल	-	-	
15	उज्जैन	नरवर-4	65	हामूखेड़ी	गेहूं	-	
16	उज्जैन	नरवर-4	71	चंदेसरा	गेहूं	-	
17	उज्जैन	नरवर-4	81	वोलासा	गेहूं	चना	
18	उज्जैन	नरवर-4	82	कासमपुर	गेहूं	चना	
19	घट्टिया	वृत्त-1 पानबिहार	6	लसूडिया बाजार	गेहूं	चना	
20	घट्टिया	वृत्त-1 पानबिहार	15	कागदी कराडिया	गेहूं	चना	
21	घट्टिया	वृत्त-1 पानबिहार	16	किठोदा जागीर	गेहूं	चना	
22	घट्टिया	वृत्त-1 पानबिहार	27	रातडिया	गेहूं	चना	
23	घट्टिया	वृत्त-1 पानबिहार	29	नागपुरा	गेहूं	चना	
24	घट्टिया	वृत्त-1 पानबिहार	30	झिरन्या	गेहूं	चना	
25	घट्टिया	वृत्त-1 पानबिहार	36	भेरुगढ़	गेहूं	-	
26	घट्टिया	वृत्त-2 घट्टिया	37	भीतरी	गेहूं	-	
27	घट्टिया	वृत्त-2 घट्टिया	38	कमेड़	गेहूं	-	
28	घट्टिया	वृत्त-2 घट्टिया	39	सुरासा	गेहूं	-	
29	घट्टिया	वृत्त-2 घट्टिया	41	उटेसरा	गेहूं	चना	
30	घट्टिया	वृत्त-2 घट्टिया	44	जयरामपुरा	गेहूं	चना	
31	घट्टिया	वृत्त-2 घट्टिया	57	खेडाचितावल्या	-	चना	
32	घट्टिया	वृत्त-2 घट्टिया	65	कदवाली	गेहूं	चना	
33	घट्टिया	वृत्त-2 घट्टिया	68	कलेसर	गेहूं	चना	
34	घट्टिया	वृत्त-2 घट्टिया	71	खजुरिया सदर	गेहूं	चना	
35	खाचरौद	1-घिनौदा	1	गोठड़ा	-	-	
36	खाचरौद	1-घिनौदा	2	नापाखेड़ी	-	-	
37	खाचरौद	1-घिनौदा	10	डोडिया	गेहूं	-	
38	खाचरौद	4-बडागांव	67	सेकड़ीसुल्तानपुर	-	-	
39	नागदा	1-नागदा	11	निपानिया	गेहूं	-	
40	नागदा	1-नागदा	15	टकरावदा	गेहूं	-	
41	नागदा	1-नागदा	16	अजीमाबाद पारदी	-	-	
42	नागदा	1-नागदा	20	अमलावदिया	-	-	
43	नागदा	1-नागदा	24	रतन्याखेड़ी	-	-	
44	नागदा	2-उन्हेल	40	सरवना उन्हेल	गेहूं	चना	
45	नागदा	2-उन्हेल	43	जलोदिया उन्हेल	-	-	
46	नागदा	2-उन्हेल	57	चावण्ड	गेहूं	चना	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(12)	(14)	(16)
47	बड़नगर	1-रुणिजा	8	मुगांवदा	गेहूं	चना	
48	बड़नगर	1-रुणिजा	37	बालोदा हसन	-	चना	
49	बड़नगर	2-बलेड़ी	40	उकारपुरा	-	चना	
50	बड़नगर	2-बलेड़ी	52	पात्याखेड़ी	-	चना	
51	बड़नगर	2-बलेड़ी	58	महुड़ीआलम	-	चना	
52	महिदपुर	1-झारडा	19	बावलिया	गेहूं	चना	
53	महिदपुर	1-झारडा	20	पीपल्याभीम	गेहूं	चना	
54	महिदपुर	1-झारडा	23	घाटपिपल्या	गेहूं	चना	
55	महिदपुर	1-झारडा	26	मेलाखेडी	गेहूं	चना	
56	महिदपुर	1-झारडा	39	पाताखेड़ी	गेहूं	चना	
57	महिदपुर	1-झारडा	47	सुमराखेडा	गेहूं	चना	
58	महिदपुर	2-महिदपुर	62	नीमखेडा	गेहूं	चना	
59	महिदपुर	2-महिदपुर	63	खोरिया पदमा	गेहूं	चना	
60	महिदपुर	2-महिदपुर	72	काजीखेडी	गेहूं	चना	
61	महिदपुर	2-महिदपुर	73	कस्बा महिदपुर	गेहूं	चना	
62	महिदपुर	2-महिदपुर	74	भीमाखेडा	गेहूं	चना	
63	महिदपुर	2-महिदपुर	75	कढाई	गेहूं	चना	
64	महिदपुर	2-महिदपुर	85	बिसलखेडी	गेहूं	चना	
65	महिदपुर	2-महिदपुर	93	डूगरखेडी	गेहूं	चना	
66	महिदपुर	2-महिदपुर	98	कामलियाखेडी	गेहूं	चना	
67	महिदपुर	2-महिदपुर	109	लसुडियादेवसी	गेहूं	चना	
68	महिदपुर	2-महिदपुर	110	घोसला	गेहूं	चना	
69	महिदपुर	2-महिदपुर	111	आक्याजस्सा	गेहूं	चना	
70	महिदपुर	2-महिदपुर	114	जेल्याखेडी	गेहूं	चना	
71	महिदपुर	2-महिदपुर	119	मालीखेडी	गेहूं	चना	
72	तराना	1-माकडोन	2	इलमखेड़ी	-	चना	
73	तराना	1-माकडोन	4	बड़ोदिया (माकडौन)	-	चना	
74	तराना	1-माकडोन	10	बगवाड़ा	गेहूं	चना	
75	तराना	1-माकडोन	17	चांदनियाखेड़ी	-	चना	
76	तराना	1-माकडोन	31	परी	-	चना	
77	तराना	1-माकडोन	47	लालाखेड़ा	-	चना	
78	तराना	2-तराना	63	खरखड़ी	-	चना	
79	तराना	2-तराना	77	बंजारी	-	चना	
80	तराना	2-तराना	78	टिटोड़ी	-	चना	
81	तराना	2-तराना	81	सालाखेड़ी	गेहूं	चना	
82	तराना	2-तराना	85	रायपुरा	गेहूं	चना	
83	तराना	2-तराना	95	सांकरी	-	चना	
84	तराना	2-तराना	99	मल्लूपुरा	-	चना	
85	तराना	2-तराना	100	नानूखेड़ा	-	चना	

अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला उज्जैन.